

Queensland में Kindy

Kindy क्या होती है?

Kindergarten को kindy कहते हैं, जो बच्चों के लिए स्कूल जाना शुरू करने से एक साल पहले अंशकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम है। kindy कार्यक्रम में भाग लेने से आपके बच्चे को खेल के माध्यम से सीखने, दोस्त बनाने तथा स्कूल के लिए तैयार होने में मदद मिलती है।

Queensland Government अनुमोदित kindy कार्यक्रम खेल-आधारित हैं और (एर्ली चाइल्डहुड) शुरुआती बाल्यकाल शिक्षक द्वारा डिलीवर किए जाते हैं। Kindy कार्यक्रम शुरुआती बाल्यकाल शिक्षा केंद्रों, देश के कुछ दूरवर्ती स्कूलों में पेश किए जा सकते हैं; तथा दूरस्थ शिक्षा या eKindy द्वारा उन कुछ छात्रों के लिए जो केंद्र तक नहीं जा सकते हैं।

kindy में शिक्षा

kindy में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं:

- कल्पनाओं विचारों और भावनाओं के आदान-प्रदान के लिए भाषा का उपयोग करना
- दोस्त बनाने, दूसरों के साथ चीजें साझा कराने और दूसरों के साथ खेलना
- नए अनुभवों के माध्यम से सीखना
- अधिक आत्मविश्वासी और मजबूत महसूस करना
- कला, नृत्य और नाटकीय खेल के माध्यम से खुद को व्यक्त करना
- उनके ज्ञान को आगे बढ़ाना अपने ज्ञान के साथ शुरुआत करना, नए विचारों का अन्वेषण करना और उन्हें स्कूल की एक बढ़िया शुरुआत देने में मदद करना है।

दाखिला कैसे लें

Queensland में बच्चे स्कूल जाना शुरू करने से पहले के वर्ष में kindy में भाग ले सकते हैं। प्रत्येक सेवा अलग है और कुछ में प्रतीक्षा सूची हो सकती है, इसलिए चुनी गई kindergarten सेवा से अपने बच्चे के नामांकन के लिए सबसे अच्छे समय के बारे में बात करना बेहतर होता है।

kindy में भाग लेने के लिए आपका बच्चा 30 जून तक 4 साल का होना चाहिए।

बच्चे की जन्म तिथि	बच्चा kindy में भाग ले सकता है
1 जुलाई 2013 से 30 जून 2014	2018
1 जुलाई 2014 से 30 जून 2015	2019
1 जुलाई 2015 से 30 जून 2016	2020
1 जुलाई 2016 से 30 जून 2017	2021
1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018	2022
1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019	2023

अपने बच्चे के नामांकन के लिए आपको इनकी जरूरत होगी:

- आपके बच्चे का नाम और पता
- माता-पिता, देखभालकर्ता या अभिभावक के रूप में आपका विवरण
- किसी भी अदालत के आदेश या परवरिश आदेश या योजनाओं का विवरण
- किन्हीं विशेष आवश्यकताओं का विवरण (जैसे: अक्षमता, खाद्य संबंधी एलर्जी या अन्य जरूरतें)
- जन्म की तारीख का प्रमाण (जैसे जन्म प्रमाण-पत्र)
- स्वास्थ्य और टीकाकरण की स्थिति
- आपके बच्चे को लेने के लिए आने वाले व्यक्तियों का विवरण तथा आपात स्थिति में किसे सूचना देनी चाहिए।

आपकी सेवा इस जानकारी को गोपनीय रखेगी और आपकी अपने बच्चे के रिकॉर्ड तक पूरी पहुंच होगी।



kindy कार्यक्रम का चयन करना

Queensland के सभी बच्चे स्कूल जाना शुरू करने से पहले के वर्ष में किसी अनुमोदित kindergarten में भाग लेने के पात्र हैं।

अनुमोदित kindergarten कार्यक्रम सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करता है, और:

- सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, योग्य शुरुआती बाल्यकाल शिक्षकों द्वारा प्रदत्त एक खेल-आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम होता है
- आम तौर पर बच्चों के लिए स्कूल जाना शुरू करने से एक साल पहले सप्ताह में 15 घंटे, साल में 40 सप्ताह प्रदान किया जाता है
- Queensland Kindergarten Learning Guideline या अन्य Queensland Curriculum and Assessment Authority से मान्यता-प्राप्त शैक्षणिक कार्यक्रम के साथ संरेखित होता है।

Queensland Government द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम की पहचान करने में मदद के लिए 'kindy tick' देखें।



kindy पर कितना खर्च आता है

सेवा के आधार पर Kindergarten फीस अलग-अलग होती है। अपने पसंदीदा kindy की फीस ढांचे का विवरण जानने के लिए उनसे संपर्क करें।

कम या बिना खर्च वाले kindergarten, पालक परिवारों सहित, ऐसे पात्र परिवारों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जो:

- वर्तमान में ऑस्ट्रेलियाई सरकारी Health Care Card (HCC) धारक हैं (या जिनकी कोई संतान इसकी धारक है)
- Australian Government Pensioner Concession Card (स्वचालित HCC पात्रता) धारक हैं।
- Department of Veterans' Affairs Gold Card या White Card धारक हैं।
- HCC जारी करने के इरादे से संबंधित एजेंसी से औपचारिक संचार, जैसे कोई पत्र
- एबोरिजनल (आदिवासी) या टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर हैं (या उनकी कोई संतान है जो इस मूल से सम्बन्धित है)
- एक ही वर्ष में नामांकित एक ही उम्र के तीन या अधिक बच्चे हैं।

कम या बिना खर्च वाले kindergarten के लिए सब्सिडी (छूट) सीधे आपके सेवा प्रदाता को प्रदान की जाती है। यह आपके जेब से होने वाले खर्च को कम कर सकता है। भले ही आप कई मानदंडों को पूरा करते हों, लेकिन इसका दावा केवल एक ही बार किया जा सकता है।

लंबी अवधि की डे केयर सेटिंग वाले kindergarten कार्यक्रम में भाग ले रहे बच्चों के परिवार भी Commonwealth Government Child Care Subsidy के लिए पात्र हो सकते हैं।

इन राष्ट्रमंडल सरकारी सब्सिडी के लिए पात्रता के बारे में जानकारी Centrelink से उपलब्ध है।

पालक के साथ या संबंधियों की देखरेख में रहने वाले बच्चे भी अतिरिक्त सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने kindy और फिर Child Safety Service Centre से संपर्क करें।

अधिक जानकारी

Queensland Government से टेलीफोन **13 74 68** पर संपर्क करें। www.qld.gov.au/earlyyearscount पर 'kindy' की सर्च करें

